



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 863 राँची, बुधवार,

30 अक्टूबर, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2019

संख्या-परि०वि०(स्था०)-124/2015-013 -- उपायुक्त, पाकुड़, उपायुक्त, चतरा एवं उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा द्वारा स्थानीय एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्रमशः श्री राजीव रंजन, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़, श्री संतोष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, चतरा तथा श्री मुस्तकिम अंसारी, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसाँवा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है। संबंधित उपायुक्तों द्वारा अनुशंसित निम्नांकित पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जिला का नाम
1.	श्री राजीव रंजन, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह- प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी।	पाकुड़।
2.	श्री संतोष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता-सह- प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी।	चतरा।
3.	श्री मुस्तकिम अंसारी, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-	सरायकेला-खरसाँवा।

	प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी।	
--	--------------------------------	--

2. उपरोक्त तीनों पदाधिकारी प्रावधानित नियम के तहत वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि की राशि परिवहन विभाग के लिए कर्णाकित राजस्व संग्रहण संबंधी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने ज़िलान्तर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन की रोक-थाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की नियमित सघन जाँच हो।

4. उपरोक्त तीनों पदाधिकारी मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।
